

**DGACR Departmental Canteen Weekly Menu**

समय	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	वीरवार	शुक्रवार
10:00 बजे से खत्म होने तक	पोहा आमलेट/स्लाइस आलू टिक्की ब्रेड पकोडे/गोबी पकोडे	बर्गर इडली साम्बर समोसे	उपमा आमलेट/ स्लाइस साम्बर बडा आलू टिक्की कचोरी सब्जी	पोहा आमलेट/ स्लाइस दाल बडा/गोभी पकोडा आलू टिक्की	सैन्डविच आमलेट/ स्लाइस इडली साम्बर समोसे/ब्रेड पकोडा
10:30 बजे से	खोया बर्फी बालू शाही	खोया बर्फी गुलाब जामुन	खोया बर्फी	बेशन बर्फी खोया बर्फी	खोया बर्फी
12:45 बजे से खत्म होने तक	थाली (रोटी चावल, दाल, रायता, सब्जी) पनीर (स्पेशल सब्जी) मूंग दाल हरी सब्जी चावल चपाती ढोसा साम्बर	थाली (रोटी चावल, दाल, रायता, सब्जी) राजमा हरी सब्जी चावल चपाती रायता वेडमी पूरी	थाली (रोटी चावल, दाल, रायता, सब्जी) दाल हरी सब्जी चावल चपाती मिक्स वैज (स्पेशल सब्जी) पराठे (आलू के)	थाली (रोटी चावल, दाल, रायता, सब्जी) आलू सोयाबीन छोले चावल चपाती वैज बिरयानी छोले भठूरे	थाली (रोटी चावल, दाल, रायता, सब्जी) कढी हरी सब्जी चावल चपाती चिकन बिरयानी इडली साम्बर
3:00 बजे से खत्म होने तक	आमलेट/स्लाइस मठ्ठी/मिक्स आलू-प्याज ब्रेड पकोडा आलू पकोडे चाऊमिन	मठ्ठी बोन्डा पकोडा आलू पकोडे पासता	आमलेट/स्लाइस मठ्ठी ब्रेड पकोडा आलू पकोडे मैक्रौनी	आमलेट/स्लाइस मठ्ठी ब्रेड पकोडा आलू पकोडे वडापाव	आमलेट/स्लाइस मठ्ठी बोन्डा पकोडा आलू पकोडे चाऊमिन

1. कोल्ड ड्रिंक्स, 2. छास लस्सी, 3. फलेवर मिल्क, 4. कोल्ड काफी, 5. ब्रेड सलाइस 6. फलेवर मिल्क, 7. कोल्ड काफी, 8. ब्रेड सलाइस 9. मन्खन (अमूल/मदर डेयरी), 10. बुधवार को मूंग दाल हलवा/गाजर हलवा (देसी घी का) 1:30 से समाप्त होने तक

-sd-

**कल्याण अधिकारी**